



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023 (MAGHA 28, 1944 SAKA)

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2 सैक्टर - 17, पंचकूला - 134109

शुद्धिपत्र

दिनांक 17 फरवरी, 2023

क्रमांक रा०नि०आ०/४ई-११/२०२३/६११.— राज्य में निर्वाचित पंचायत समितियों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा अधिसूचनाओं दिनांक 21.01.2023 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। लेकिन, कुछ निर्वाचित अध्यक्षों के नाम/पिता/पति के नामों इत्यादि में त्रुटियां पाई गईं। उन अधिसूचनाओं का विवरण जिनमें त्रुटि (त्रुटियां) पाई गईं, निम्न तालिका में दी गई हैं और सम्बन्धित शुद्धियों को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

अधिसूचना क्रमांक	जिला/ पंचायत समिति का नाम	अधिसूचना में क्रमांक	पद का नाम	नाम		पिता/पति का नाम	
				पढ़ा जाये	के स्थान पर	पढ़ा जाये	के स्थान पर
रा०नि०आ०/४ई-११/२०२३/२८९	चरखी दादरी/ बौन्द	३	अध्यक्ष	*पूजा	पूजा	—	—
रा०नि०आ०/४ई-११/२०२३/२८९	चरखी दादरी/ बाढड़ा	३	अध्यक्ष	*दर्शाना	दर्शाना	—	—

* निर्विरोध

— कोई संशोधन नहीं

धनपत सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

10207-A—C.S.—H.G.P., Pk1.